



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 6] नई दिल्ली, मई 31—जून 6, 2009, शनिवार/ज्येष्ठ 10—ज्येष्ठ 16, 1931
No. 6] NEW DELHI, MAY 31—JUNE 6, 2009, SATURDAY/JYAISTHA 10—JYAISTHA 16, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 मई, 2009

का.नि.आ. 11.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 1998 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, पुणे में प्राध्यापक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, प्राध्यापक, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती।

6. व्याप्ति.—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्राध्यापक	83* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। अंग्रेजी-7 भैतिकी-14 रसायन-7 गणित-11 इतिहास-5 अर्थशास्त्र-4 राजनीति विज्ञान-5 भूगोल-6 हिन्दी-4 विदेशी भाषा-8 कंप्यूटर विज्ञान-12	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसूचित	8000-275- 13500 रु. (पूर्व-पुनरीक्षित)	लागू नहीं होता	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

(7)	(8)	(9)	(10)
35 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के	आवश्यक : (i) किसी भारतीय विश्वविद्यालय से विनिर्दिष्ट विषय में मास्टर डिग्री में पचास प्रतिशत और	लागू नहीं होता	एक वर्ष

(7)

लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा-जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(8)

उससे ऊपर प्राप्तांक हो या वर्ण श्रेणी ओ, ए, बी, सी, डी, ई और एफ के साथ 7 बिन्दु मापमान में बी की समतुल्य श्रेणी हो; या किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य डिग्री हो;

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा संचालित प्राध्यापक के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षण (एन ईटी) या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित समरूप परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।

टिप्पण 1.—ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास संबद्ध विषय में डाक्टरेट आफ फिलॉसफी हो या जिन्होंने मास्टर आफ फिलॉसफी उत्तीर्ण की हो, उपरोक्त शैक्षिक अर्हता (ii) की अपेक्षा से छूट प्राप्त हैं।

टिप्पण 2.—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

वांछनीय :

(i) राष्ट्रीय कैडेट कोर या स्काउटिंग या खेल-कूद या सांस्कृतिक क्रियाकलापों का अनुभव।

(ii) विनिर्दिष्ट विषय में अंग्रेजी में प्रवीणता आवश्यक है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

सीधी भर्ती द्वारा।

(12)

लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(13)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(14)

चयन, प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

(13)

- | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| (1) | संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय | —अध्यक्ष |
| (2) | उप-मुख्य सहायक, एकीकृत रक्षा स्टाफ/
निदेशक, मुख्यालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ | —सदस्य |

[फा. सं. 15580/आरआर/एलईसी/एनडीए/आईडीएस/कार्मिक/137/09/र.(नि.)]

एस. एस. एस. समी, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 14th May, 2009

S.R.O. 11.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Defence Academy (Academic Staff) Recruitment Rules, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Lecturer in the Ministry of Defence, National Defence Academy, Khadakwasla, Pune, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, the National Defence Academy, Lecturer, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of post, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment age-limit and qualification etc.—The method of recruitment to the said post, age-limit and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other Special Categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rules 30 or of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lecturer	83* (2009) *Subject to variation dependent on workload. English-7	General Central Services, (Group 'A') Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 8000-275-13500 (pre-revised)	Not applicable	No

(2)

Physics-14
Chemistry-7
Mathematics-11
History-5
Economics-4
Political Science-5
Geography-6
Hindi-4
Foreign Language-8
Computer Science-12

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(7)	(8)	(9)
<p>Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)</p> <p>Note:— The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul, and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.)</p>	<p>Essential:— (i) Fifty five per cent marks and above or an equivalent grade of B in the 7 point scale with letter grades O, A, B, C, D, E and F at the Master's Degree in the specified subject from an Indian University; Or an equivalent degree from a foreign University.</p> <p>(ii) Should have cleared National Eligibility Test (NET) for Lecturers conducted by the University Grants Commission, Council for Scientific and Industrial Research or similar test accredited by the University Grants Commission.</p> <p>Note 1 : The candidates who have been awarded Doctorate of Philosophy or passed the Master of Philosophy Examination in the concerned subject are exempted from the requirement of Educational Qualification (ii) above.</p> <p>Note 2 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) Experience in National Cadet Corps or Scouting or games or cultural activities.</p> <p>(ii) proficiency in English in the specified subject shall be essential.</p>	Not applicable.

1967 GI/09-2

Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/Absorption, grades from which promotion/deputation/absorption is to be made
(10)	(11)	(12)
One year	Direct recruitment	Not applicable
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)		(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of :— (for considering confirmation) :— 1. Joint Secretary, Ministry of Defence 2. Deputy Assistant Chief of Integrated Defence Staff/Director, Headquarters Integrated Defence staff		Selection on each occasion shall be made in Consultation with the Union Public Service Commission.
		—Chairman —Member

[F. No. 15580/RRs/LEC/NDA/IDS/PERS/137/09/D (Appts.)]

S. S. S. SARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 मई, 2009

का.नि.आ. 12.—प्रादेशिक सेना के अधिनियम, 1948 (संशोधित संस्करण 1976) की धारा 14 के अंतर्गत का.नि.आ. 12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा प्रादेशिक सेना नियमावली, 1948 में नीचे दिए गए नियम जोड़े गए हैं। ये नियम इस प्रकार हैं :—

1 (क) ये नियम (प्रादेशिक सेना अतिरिक्त) नियमावली, 2009 कहलाएंगे।

(ख) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. प्रादेशिक सेना नियमावली, 1948 में नियम 19 के बाद निम्नलिखित नियम भी शामिल किया/जोड़ा जाएगा और इसे नियम 19(क) कहा जाएगा।

19 (क) भर्ती के बाद प्रशिक्षण (पी ई टी): इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (अफसरों को छोड़कर) के प्रत्येक जवान को नियम 19 (क) एवं (ख) के अंतर्गत रिक्त प्रशिक्षण पूरा करने के बाद छः महीने के अन्दर आठ महीने की अवधि अर्थात् 244 दिन के लिए भर्ती के बाद प्रशिक्षण (पी ई टी) दिया जाएगा, यह प्रशिक्षण एरिया अफसर कमांडिंग/टीए ग्रुप कमांडर के आदेशानुसार उससे सम्बद्ध रेजिमेंट सेंटर में दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के दौरान ये कार्मिक सभी कार्यों के लिए नियमित सेना के कार्मिकों के बराबर माने जाएंगे। यह प्रशिक्षण प्रादेशिक सेना विनियम, 1948 के नियम 19(क) और (ख) के अतिरिक्त होगा।

[केस फा. सं. 34273/पी/टीए-2]

जय राज, अवर सचिव

पाद टिप्पण.—भारत सरकार के राजपत्र के फरवरी 1949 के भाग 1 खंड 3 में दी गई अधिसूचना संख्या 252-ए के अंतर्गत प्रकाशित प्रादेशिक सेना नियमावली, 1948 को समय-समय पर संशोधित किया गया।

New Delhi, the 26th May, 2009

S.R.O. 12.—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Territorial Army Act, 1948 (Revised Edition 1976) the Central Government hereby makes the following rules further to the Territorial Army Rules, 1948, namely :—

1. (a) These rules may be called Territorial Army (Addition) Rules, 2009.
- (b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. The following may also be inserted/added to Territorial Army Rules, 1948 after Rule 19 as Rule 19A.

19A. Post Enrolment Training (PET): Every member of Infantry Battalions (Territorial Army) (other than officers) shall be liable for purpose of undergoing Post Enrolment Training (PET) at affiliated Regimental Centre under the orders of the Officer Commanding the Area/TA Group Commander in which the unit is located for a period of eight months i.e., 244 days within six months of completion of recruit training under Rule 19 (a) and (b). They shall be at par with regular Army personnel during this training period for all purposes. This training will be in addition to Rule 19 (a) and (b) of the Territorial Army Regulations, 1948.

[Case F. No. 34273/P/TA-2]

JAI RAJ, Under Secy.

Foot Note.—The Territorial Army Rules, 1948, published *vide* Notification No. 252-A in the Gazette of India, Part I, Section 3, dated February 1949 have been subsequently amended from time to time.